

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

16/11

सं० 261] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 1973/कार्तिक 14, 1895
No. 261] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 1973/KARTIKA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th November 1973

SUBJECT:—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974 (Amendment No. 50).

No. 184—ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) for the period April 1973 March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol II)	Reference	Amendments
96	B.II.1	After entry (x), under remark (1), the following may be added:—
	Col. 5	“(xi) Phenol and Phthalic Anhydride against exports of Phenol—Phthalein B.P.”

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 50)।

संख्या 184—आई० टी० सी० (पीएन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46—आई० टी० सी० (पीएन)/73, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
96.	बी० 11.1	अभ्युक्ति (1) के अन्तर्गत (10) प्रविष्टि के बाव निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—
	कालम-5	“(11) फिनोल—थैलीन बी० पी० के निर्यातों के प्रति फिनोल तथा थैलिक एनहाई- डाइड।”

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।